

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 797 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 नवम्बर 2019 — अग्रहायण 2, शक 1941

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक 11779/वि. स./स्था./2019. — छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1990 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा एतद्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 के अंतर्गत निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम 1990 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं. अर्थात् -

संशोधन

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के सेवा अधिनियम, 1981 के अधीन निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम, 1990 में छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय हेतु वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2019-61-00054/न-3/चार दिनांक 02-07-2019 के द्वारा पदनाम सिस्टम एनालिस्ट, वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 नवीन पद सृजित है का कंडिका क्रमांक एवं पद की पूर्ति की प्रणाली में भर्ती का तरीका निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

कंडिका क्रमांक	पद	वर्तमान भर्ती का तरीका	संशोधित भर्ती का तरीका
(1)	(2)	(3)	(4)
पदों की पूर्ति प्रणाली 4 (19)	सिस्टम एनालिस्ट	सृजित नवीन पद	कम्प्यूटर प्रोग्रामरों में से योग्यता प्रधान वरिष्ठता गौण के आधार पर पदोन्नति द्वारा.

इस के पश्चात् कंडिका क्रमांक पुनः क्रमांकित किया जाकर 4 (20) से 4 (81) क्रमांकित किया जाता है.

आदेशानुसार,

हस्ता./-

(चन्द्र शेखर गंगराड़े)

प्रमुख सचिव.